

Prakash assignment model answers 2022

भाग २ (व्याकरण)

पश्च १

१.१ खाली जगहों में सही सर्वनाम भरिए।

Fill in the blanks with the correct pronoun

क) तुम सेब खाते हो?

ख) मैं केला और आम खरीदता हूँ।

ग) आप यह चाय पीजिए।

(३)

१.२ कोष्ठकों के अनुसार वाक्य लिखिए।

Write the following sentences according to the instructions within the brackets.

क) वे फल खाएँगे। (वर्तमान काल)

वे फल खाते हैं। / वे फल खा रहे हैं।

ख) उन्होंने परीक्षा लिखी। (वर्तमान काल)

वे परीक्षा लिखती/लिखते हैं। / वे परीक्षा लिख रही/रहे हैं।

ग) बच्चे बाहर नाचेंगे। (भूतकाल)

बच्चे बाहर नाचते थे। / नाच रहे थे / बच्चे बाहर नाचे।

घ) राहुल गीत गाता है। (भूतकाल use ने)

राहुल ने गीत गाया/गाये।

ङ) राम और रहीम दिल्ली में रहते हैं। (भविष्यत् काल)

राम और रहीम दिल्ली में रहेंगे।

च) माताजी ने पूजा की। (भविष्यत् काल)

माताजी पूजा करेंगी।

(६)

पश्च २

२.१ अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए।

Translate into English

क) पेड़ों की छाया में राहगीर आराम करते हैं।

The travellers rest in the shade of the trees.

ख) शेरसिंह ने टोपी लेकर पहन ली।

The lion took the hat and wore it.

ग) सारी दुनिया बनावटी है।

The whole world is fake.

(३)

२.२ हिन्दी में अनुवाद कीजिए।

Translate into Hindi

क) His sister will bring the book.

उसकी बहन पुस्तक लगेगी / लायेगी।

ख) My brother's house is big.

मेरे भाई का घर बड़ा है।

ग) I am afraid of the lion.

मैं शेर से डरता / डरती हूँ।

(३)

२.३ खाली जगहों में सही विभक्ति भरिए।

Fill in the blank spaces with the correct post-position

क) मैं चम्मच से खाता हूँ।

ख) बंदर पेड़ पर बैठा है।

ग) मोहन राधा के लिए साड़ी खरीदेगा।

(३)

पश्च ३

३.१ कोष्ठकों के सही शब्द के नीचे रेखा खींचिए।

Underline the correct word within brackets

- क) (पीला, पीले) आम मीठे होते हैं।
ख) एक (लड़के, लड़का) ने खाना खाया।
ग) गाय घास चर (रहा, रही) है।
घ) बुढ़िया चुपचाप (बैठी, बैठा) है।
ङ) गोपाल की (बेटियाँ, बेटी) बीमार हैं। (५)

३.२ सामूहिक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए।

Write one word for these phrases

- क) देश में रहने वाला। देशवासी
ख) प्यार से छूना। सहलाना
ग) कान में धीरे-धीरे बोलना। कानाफूसी (३)

३.३ निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में लिखिए।

Write the following sentences in plural

- क) पक्का आम मीठा है।
पक्के आम मीठे हैं।
ख) काली घोड़ी दौड़ती है।
काली घोड़ियाँ दौड़ती हैं।
ग) रानी माला पहनती है।
रानियाँ मालाएँ पहनती हैं।
घ) आदमी फूल तोड़ता है।
आदमी फूल तोड़ते हैं।
ङ) उसका उत्तर सही है।
उनके उत्तर सही हैं। (५)

३.४ निम्नलिखित शब्दों से एक-एक वाक्य बनाइए।

Write one sentence with each of the following words.

क) शादी

रविवार को मेरे भाई की शादी है।

ख) दोस्त

मेरे दोस्त का नाम मीरा है।

ग) शीशा

अचानक शीशा टूट गया।

घ) माली

माली फूल रोपता है।

ङ) राजा

राजा महल में रहता है।

(५)